

GOVERNMENT OF INDIA

 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 5]

दिल्ली, मार्च 15—मार्च 21, 2019, बृहस्पतिवार/फाल्गुन 24—फाल्गुन 30, 1940

No. 5]

DELHI, MARCH 15— MARCH 21, 2019, THURSDAY/PHALGUNA 24—PHALGUNA 30, 1940

भाग—II-II

PART-II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं

Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 485/2015

कंपनीज अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

एग्जीक्यूटिव सर्च (यू. के.) लिमिटेड

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

कलाजिना कंसल्टेंट्स लिमिटेड एंड आनादरस

...प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 433, 434 तथा धारा 439 (1) के साथ पढ़े माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा तिथि 27.07.2015 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को समाप्ति तथा (वाइडिंगअप) हेतु एक याचिका एग्जीक्यूटिव सर्च (यू. के.) लिमिटेड, 7, हेरगा कोर्ट, सुडबरी हिल, हैरी, मिडडलसेक्स, एचए 1 3 आर. एस. यूनाइटेड किंगडम जो की प्रतिवादी कंपनी का लेनदार है, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 19.12.2017 सी.पी. संख्या 485/2015 में शासकीय समापक को कंपनी के अनंतिम परिसमापक नियुक्त किया है और याचिका का विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में सुनवाई की अगली तारीख 25.03.2019 के लिए तय की गई है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 25.03.2019 से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी। कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देना चाहिए।

हस्ता.-

(डी. के. सिंह)

शासकीय समापक

दिल्ली उच्च न्यायालय

माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली से संबद्ध

8वा फ्लोर, ए विंग, लोकनायक भवन,

स्थान : नई दिल्ली.

खान मार्किट, नई दिल्ली- 110003

दिनांक _____, 2019.

फोन नं. 011 24693393

[विज्ञापन ए/III/30/18]

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)

COMPANY PETITION NO. 485/2015

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF

EXECUTIVE SEARCH (UK) LIMITED

...PETITIONER

Versus

KLAZINA CONSULTANTS LIMITED AND ANOTHERS

...RESPONDENT

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433(E) read with Sections 434 (1) (A) and Section 439 of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court of Delhi on 27.07.2015 was presented to the Hon'ble High Court by the Executive Search (UK) Limited, 7, Herga Court, Sudbury Hill, Harrow, Middlesex, HA 1 3 RS United Kingdom Creditor of the Respondent company.

The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 19.12.2017 passed in C.P. No. 485/2015 appointed the Official Liquidator as the provisional liquidator of the company and directed the Official Liquidator to publish the advertisement of petition. The next date of hearing in the said petition is fixed for 25.03.2019.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the undermentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address, so as to reach the undermentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 25.03.2019 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of petition will be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court, and a copy served on the petitioner or his advocate, not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Place : New Delhi

Dated ,2019.

Sd/-
(D.K. SINGH)
OFFICIAL LIQUIDATOR
ATTACHED TO THE HON'BLE HIGH COURT OF DELHI
8th FLOOR, A WING, LOK NAYAK BHAWAN,
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
Phone No. : 011-24693393

[ADVT. A/II/II/30/18]